

वित्तीय विवरण — (Financial Statements)

- आर्थिक चिह्न
- लाभ हानि खाता
- वित्तीय विवरणों में As on & For the year ending. से आप क्या समझते हैं ?
- उपर्युक्त दोनों विवरणों में पहले कौन तैयार किया जाता है ?
- सम्पत्ति एवं दायित्व से आप क्या समझते हैं ?
- स्थायी एवं चालू सम्पत्ति किसे कहते हैं ?
- अदृश्य सम्पत्ति क्या है ? उदाहरण दीजिए।
- अंश पूँजी के बारे में आप क्या जानते हैं ? अंश कितने प्रकार के होते हैं ?
- दीर्घकालीन एवं चालू दायित्व से आप क्या समझते हैं ?
- अदत्त एवं स्वदत्त से आप क्या समझते हैं ?
- कृत्रिम सम्पत्ति किसे कहते हैं ? उदाहरण दीजिए।
- संचय Reserve क्या है ?

Date |

Page No. |

Balance Sheet

Liabilities

- Share Capital
- Reserve & Surplus

Long term liabilities

Short term liabilities

Provisions

Assets

• Fixed assets

• Current assets

• Misc. Expenditure

लाभ/हानि खाता (Profit & Loss A/c)

- आय - व्यय का विवरण है।
- कार्यालय व्यय में कौन-2 से खर्च शामिल हैं ?
- विक्रय से सम्बन्धित व्यय कौन-2 से हैं ?
- अन्य व्यय से आप क्या समझते हैं ?
- क्षति एवं हानि के बारे में बताइए।
- सम्भावित हानि क्या है ?
- सकल लाभ किसे कहते हैं ?
- कुछ प्राप्ति/ आय को बताइए।